

परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. राजस्व खाता										
क. प्राप्तियां	4,31,021	5,08,775	5,31,429	6,06,733	1,00,408	23.3	22,654	4.5	75,304	14.2
ख. व्यय	4,38,034	5,17,123	5,36,995	5,94,760	98,961	22.6	19,872	3.8	57,765	10.8
ग. अधिशेष(+) / घाटा(-) (I क- I ख)	-7,013	-8,348	-5,566	11,973						
II. पूंजी खाता *										
क. प्राप्तियां	1,64,607	1,51,782	1,43,307	1,61,112	-21,300	-12.9	-8,475	-5.6	17,805	12.4
ख. संवितरण	1,23,648	1,37,661	1,50,951	1,71,859	27,304	22.1	13,290	9.7	20,908	13.9
ग. अधिशेष(+) / घाटा(-) (II क- II ख)	40,960	14,120	-7,645	-10,748						
III. कुल प्राप्तियाँ	5,95,628	6,60,557	6,74,736	7,67,845	79,107	13.3	14,179	2.1	93,109	13.8
IV. कुल संवितरण	5,61,682	6,54,784	6,87,946	7,66,620	1,26,264	22.5	33,162	5.1	78,674	11.4
V. समग्र अधिशेष (+) / घाटा (-) [III-IV]	33,947	5,773	-13,210	1,225						
VI. समग्र अधिशेष (+) / घाटे (-) [V=VI(क+ख+ग)] का वित्तपोषण										
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+) / कमी (-)	-1,827	4,560	-9,469	3,311						
ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) / से आहरण (-) (निवल)	34,761	1,263	-3,672	-2,016						
ग. भा.रि.बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती(+) / में वृद्धि (-) (निवल)	1,013	-50	-70	-70						

* : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम (ii) नकद शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री और (iii) भारिबैंक के पास जमाराशियों को छोड़कर । पूंजी प्राप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल जबकि पूंजी व्यय लोक-लेखा को छोड़कर ।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
2. परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।